



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 2, 1979/फाल्गुन 11, 1900

No. 101]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 2, 1979/PALGUNA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौबहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1979

सां०आ० 121(अ):—दिल्ली परिवहन (सलाहकार परिषद्) नियम, 1973 के नियम 3 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली परिवहन निगम के विचार प्राप्तिनिश्चित करने के बाद, श्री मुखर्जी सिंह, मकान नं० 31, बुधनपुर, डाकखाना चान्दपुर, दिल्ली और श्री महाबीर सिंह, मकान नं० 2, गांव और डा० हाउजखाम, नई दिल्ली, सदस्य दिल्ली नगर निगम और श्री रमेश चन्द टोंगर, अध्यक्ष छात्र सभ, जामिया मिलिया इस्लामिया को उक्त नियमों के नियम 11 में निर्दिष्ट मामलों पर उक्त नियमों के नियम 6, 7, 8 और 22 में निर्दिष्ट शर्तों पर उक्त निगम को सलाह देने के लिए गठित दिल्ली परिवहन निगम सलाहकार परिषद् के सदस्य नियुक्त करती है, और भारत सरकार के नौबहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं०

सां०आ० 870 (ई) दि० 31-12-77 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में,—

(क) मंत्र 7 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “श्री रमेश चन्द टोंगर, अध्यक्ष छात्र सभ, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली” रखी जाए ;

(ख) मंत्र 131 और तत्संबन्धी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

“32. श्री मुखर्जी सिंह, सदस्य, दिल्ली नगर निगम, मकान नं० 31 बुधनपुर, डाकखाना चान्दपुर, दिल्ली।

33. श्री महाबीर सिंह, सदस्य, दिल्ली नगर निगम, मकान नं० 3, गांव और डाकखाना हाउजखाम, नई दिल्ली।”

[सं० टी०जी०डी०-166/76]

बी० बी० महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 2nd March, 1979

NOTIFICATION

S.O. 121(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), read with rule 3 of the Delhi Transport (Advisory Council) Rules, 1973, the Central Government, after ascertaining the views of the Delhi Transport Corporation, established under section 3 of the said Act hereby appoints Shri Sukhbir Singh, House No. 31, Budhanpur, P.O. Chandpur, Delhi and Shri Mahavir Singh, House No. 3 V. & P.O. Hauz Khas, New Delhi, Member of the Municipal Corporation of Delhi and Shri Ramesh Chand Tonger, President, Students' Union Jamia Millia Islamia, Jamianagar, New Delhi, as members of the Delhi Transport Corporation Advisory Council constituted for the purpose of advising the said Corporation on the matters specified in rule 11 of the said rules, on the terms specified in rules 6, 7, 8 and 22 of the said rules, and makes the following further amendments in

the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 870 (E), dated the 31st December, 1977, namely :—

In the said notification, in paragraph 1,—

- (a) for the entry against item 7, the entry "Shri Ramesh Chand Tonger, President, Students' Union Jamia Millia Islamia, Jamianagar, New Delhi" shall be substituted ;
- (b) after item 31 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—
 - "32. Shri Sukhbir Singh, Member Municipal Corporation of Delhi, House No. 31, Budhanpur, P.O. Chandpur, Delhi.
 - 33. Shri Mahavir Singh, Member Municipal Corporation of Delhi, House No. 3, V. & P.O. Hauz Khas, New Delhi".

[F. No. TGD(166)/76]

B. B. MAHAJAN, Jt. Secy.